

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215313
CG-DL-E-10012020-215313

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]
No. 112]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सं. 2/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राजानि)

का. आ. 122(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित एवं यथा-अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद् द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै नटराज एक्सपोर्ट्स, WZ-114B, टोडापुर, इंद्रपुरी के निकट, नई दिल्ली और अन्य.	क्रा.सं . DRI/DZU/ 23/Enq-81/2017 दिनांक 05.09.2019 (SCN No. 31/2019)	संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली एवं अन्य आईसीडीस. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. (तालिका के क्रम सं 1 . और के लिए 2)
2.	मै सुमित्रा टेक्सटाइल, निंबरी बापोली रोड, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, विल्लेजबहरामपुर- तहसील-बापोली, पानीपत और अन्य.	क्रा.सं . DRI/DZU/ 23/Int-16/2018 दिनांक 01.05.2019 दिनांक 23.12.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (SCN No. 13/2019)	संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), ग्रुप III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमाशुल्क(आयात) , इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद,	

			नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क.	
			सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा.	
3.	मै शक्ति पम्पस (इंडिया) लि., प्लॉट सं. 401, 402 एवं 413-इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-3, पीथमपुर, धार (मध्य प्रदेश) और श्री दिनेश पतिदार, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, मै शक्ति पम्पस (इंडिया) लि., प्लॉट सं. 401, 402 एवं 413-इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-3, पीथमपुर, धार (मध्य प्रदेश)	फ़ा.सं. DRI/NRU/ CI-26/Int-0/Enq-02/2018 दिनांक 14.10.2019, दिनांक 18.12.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्तआयुक्त सीमाशुल्क /, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहार, अंधेरी पूर्व, मुंबई. संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त अपर/आयुक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क आयुक्तालय इंदौर, मध्य प्रदेश. सहायक उप/आयुक्त सीमाशुल्क, दिल्ली एयर कार्गो (आयात), न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली.	प्रधान आयुक्तआयुक्त / सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहार, अंधेरी पूर्व, मुंबई.

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-48/2019-CI]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

No. 2/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 122(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of

the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Noticee (s) and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s Natraj Exports, WZ-114B, Todapur, Near Inderpuri, New Delhi and others.	F. No. DRI/DZU/ 23/Enq-81/2017 dated 05.09.2019 (SCN No. 31/2019)	Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot- Tughlakabad, New Delhi. Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot-Patparganj, Delhi & other ICDs. Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot- Tughlakabad, New Delhi.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. (For Sl. No. 1 and 2 of the Table)
2.	M/s Sumitra Textile, Nimbri Bapoli Road, Opp. Govt. College, Village-Behrampur, Tehsil-Bapoli, Panipat and others.	F. No. DRI/DZU/ 23/Int-16/2018 dated 01.05.2019 read with corrigendum dated 23.12.2019. (SCN No. 13/2019)	Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Joint/Additional Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata. Assistant/ Deputy Commissioner of Customs-IV, Custom House, Chennai. Assistant/ Deputy Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Group-III, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Assistant/ Deputy Commissioner of Customs, O/o Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot-	

			Tughlakabad, New Delhi.	
			Assistant/ Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Mundra.	
3.	M/s Shakti Pumps (India) Ltd., Plot No. 401, 402 & 413- Industrial Area, Sector-3, Pithampur, Dhar (Madhya Pradesh) and Sh. Dinesh Patidar, Chairman & Managing Director, M/s Shakti Pumps (India) Ltd., Plot No. 401, 402 & 413- Industrial Area, Sector-3, Pithampur, Dhar (Madhya Pradesh)	F. No. DRI/NRU/ CI- 26/Int-0/Enq-02/2018 dated 14.10.2019 read with corrigendum dated 18.12.2019.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri East, Mumbai. Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Joint/Additional Commissioner of Customs, Commissionerate of Customs, Indore, Madhya Pradesh. Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Delhi Air Cargo (Import), New Custom House, New Delhi.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri East, Mumbai.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-48/2019-CI]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director